

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 01.03.21

***थाना पुवायाँ पुलिस को मिली बड़ी सफलता,**

चोरी के अभियोग में 12 घण्टे के अन्दर सटीक अनावारण करते हुए 03 अभियुक्त को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।*

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 28.02.2021 को थाना पुवायाँ पर वादी श्री आरिफ पुत्र मुनव्वर निवासी ग्राम नारायनपुर बैजू थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा इन्जीनिया (पम्पसेट) चोरी हो जाने के संबंध में मु0अ0सं0 132/21 धारा 379 भादवि व वादी श्री ईशान शाह पुत्र मंगलशाह निवासी ग्राम वरेऊना थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ट्रैक्टर से 02 बैटरे चोरी हो जाने के संबंध में मु0अ0सं0 133/21 धारा 379 भादवि व वादी मुकदमा श्री शशीन्द्र कुमार पुत्र प्रताप चन्द्र निवासी ग्राम सुनारा बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर भट्टे की पथेर पर लगी इन्जीनिया (पम्पसेट) चोरी हो जाने के संबंध में मु0अ0सं0 134/2021 धारा 379 भादवि व श्री जोतराम पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम सुनारा बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मकान के पश्चिम में रखी इन्जीनिया (पम्पसेट) चोरी हो जाने के संबंध में मु0अ0सं0 135/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया था ।

इसी क्रम में थाना पुवायाँ की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी मुकदमों में चोरी हुए माल का शतप्रतिशत बरामदगी करते हुए सटीक अनावारण किया गया व चोरी हुई 02 एमरॉन बैट्री व 03 अदद पम्पिंग इन्जन सैट के साथ 1- रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम धानुक निवासी ग्राम रेहरिया थाना सिंधौली जिला शाहजहाँपुर 2- अजय पुत्र हीरा निवासी ग्राम रेहरिया थाना सिन्धौली शाहजहाँपुर 3- राजेन्द्र पुत्र जीत कहार निवासी ग्राम बद्दीपुर हदीरा थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर को बद्दीपुर हदीरा रोड टूवेल के पास से 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ जिस पर मु0अ0सं0 140/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व राजेन्द्र पुत्र जीत कहार से 01 अदद चाकू बरामद हुआ जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 141/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगणों को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम धानुक निवासी ग्राम रेहरिया थाना सिंधौली जिला शाहजहाँपुर
- 2- अजय पुत्र हीरा निवासी ग्राम रेहरिया थाना सिन्धौली शाहजहाँपुर
- 3- राजेन्द्र पुत्र जीत कहार निवासी ग्राम बद्दीपुर हदीरा थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर

अभियुक्तगण से बरामदमाल-

1-एक एमरन बैट्री No. CAG9451T407088

2-इन्जन पम्पिंग सैट न0 TOPLAND No. 61812899 रंग हरा 6 HP

3-एक बैट्री एमरान CDA 1544T4045TS

4-एक इन्जन पम्पिंग सैट No. TOPLAND No. 111440205 रंग हरा 6 HP

5-एक इन्जन पम्पिंग सैट TOP Land 11755700 रंग हरा 6 HP का

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 132/21 धारा 379 भादवि बनाम रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम

2-मु0अ0सं0 133/21 धारा 379 भादवि बनाम रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम

3-मु0अ0सं0 134/21 धारा 379 भादवि बनाम रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम

4-मु0अ0सं0 135/21 धारा 379 भादवि बनाम रौनक उर्फ रोनु पुत्र सियाराम

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 नगेन्द्र सिंह

2-उ0नि0 बाबूराम सैनी

3- हे0का0 182 जयचन्द वर्मा

4- का0 1857 सौरभ कुमार

5- का0 62 रितेश कुमार